

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-2
संख्या- /XV-2/03(02)2017
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

सी0एम0 डैशबोर्ड "उत्कर्ष" के संचालन हेतु पूर्व में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड में विभागाध्यक्ष स्तर पर निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- वर्तमान परिपेक्ष्य में सी0एम0 डैशबोर्ड "उत्कर्ष" संबंधी गतिविधियों के संचालन/निष्पादन हेतु विभागाध्यक्ष/निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के साथ-साथ शासन स्तर पर अपर सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नोडल अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड में शासन स्तर पर "उत्कर्ष" हेतु नामित नोडल अधिकारी का विवरण निम्नवत है। :-

नाम	पदनाम	ई-मेल आईडी0
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	अपर सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	rajendra1959singh@gmail.com

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- 374 /XV-2/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन
- 2.निजी सचिव, सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3.निजी सचिव, अपर सचिव/नोडल अधिकारी (उत्कर्ष), डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4.निदेशक/नोडल अधिकारी (उत्कर्ष), डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5.गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(वी0एस0पुण्डरीर)
उपसचिव।